

AR-1088

B.Com. (Part—II) Examination
CORPORATE ACCOUNTING
(Commerce)

Time : Three Hours]

[Full Marks : 70

Note :— (1) Solve **ALL** questions.

(2) All questions carry equal marks.

1. (A) Rajat Co. Ltd. is having an authorised share capital of Rs. 20,00,000 divided into equity shares of Rs. 100 each. Of which Co. has issued 10,000 shares at the premium of Rs. 20 each and called the amounts as under :

With application Rs. 35 each

and at allotment remaining amount (including premium)

Applications received for 12760 shares of which applications for 760 shares are rejected and application money thereon is refunded. Remaining applications are allotted on prorata basis. All the amounts are called and received except allotment money on 500 shares.

Give Journal entries.

4

- (B) Ratna holds 500 equity shares of Swati Engineering Co. Ltd. having the face value of Rs. 100 each and issued at 5% discount. Ratna has paid Rs. 20 each with application and Rs. 30 each at allotment (adjusting discount), but failed to pay Rs. 30 each at first call and remaining at final call. So the Co. has decided

to forfeit her shares after final call. All forfeited shares are re-issued to Priti at Rs. 70 each as fully paid. Pass Journal entries for forfeiture and reissue of shares.

4

- (C) Jay Co. Ltd. issued 1,00,000 shares of Rs. 100 each at premium of Rs. 5 per share payable as follows :

On application Rs. 20 each

On Allotment Rs. 30 each (with premium)

On First call Rs. 30 each and remaining on final call.

All shares are subscribed and amounts received in full. Prepare 'Bank Account'.

3

- (D) According to the provision of Indian Co.'s Act, which types of shares can be issued by the Co. ?

3

OR

- (E) Shine Co. Ltd. has issued 5,00,000 equity shares of Rs. 100 each at par and called the amounts as under :

With Application Rs. 20 each

At Allotment Rs. 20 each

At First call Rs. 30 each

At Final call Rs. 30 each

Raman who holds 1000 shares has not paid first and final call money, so his shares are forfeited. All forfeited shares are reissued at Rs. 90 each as fully paid.

Give the Journal entries for forfeiture and re-issue.

4

- (F) The Sharangdhar Co. Ltd. has issued 2,00,000 equity shares of Rs. 100 each at the premium of Rs. 20 each. Terms were as under :

With Application Rs. 20 each

At Allotment Rs. 40 each (Including Premium)

At First Call Rs. 30 each

At Final Call Rs. 30 each

All the shares are subscribed, called up and paid-up. Prepare 'Capital Account'. 4

- (G) Maharashtra Alloy Co. Ltd. has issued 10,00,000 shares having face value of Rs. 100 each at 5% discount. Amounts are called as follows :

With Application Rs. 45 and remaining at allotment (Adjusting discount)

Applications received for 9,00,000 shares which are fully called-up and paid-up.

Pass Journal entries in the books of Co. 3

- (H) Royal Co. Ltd. is estd. with an authorised share capital of Rs. 20,00,000 divided into 2,00,000 equity shares of Rs. 10 each of which Co. has issued 1,40,000 shares on which the amounts are called as under:

With Application Rs. 3 each

At allotment Rs. 7 each

Applications received for demanding 2,00,000 shares.

The Board of Directors of the Co. has rejected to applications for 10,000 shares and application money is refunded thereon. Applicants for 40,000 shares are allotted fully as per their demand and remaining applicants are allotted on pro-rata basis. Assuming that all the amounts are called and received in time.

Pass the journal entries in the books of Co. 3

2. (A) Following balances are extracted from the account books of Yashodhan Co. Ltd. as on 31st March, 2014. Prepare Profit & Loss Account :

	Rs.		Rs.
Commission paid	40,000	Fire Insurance	40,000
Share transfer fee	60,000	Rent & Taxes	35,000
Municipal tax paid	20,000	Depreciation	50,000
Trade expenses	4,40,000	Bad Debts	20,000
Gross profit	26,50,000	Carriage outwards	3,50,000
Salary	6,00,000	Travelling expenses	20,000
Dividend received	1,20,000	Printing & Stationery	20,000
Commission received	1,40,000		4

- (B) Following information is available from the books of Radheshyam Trading Co. as on 31st March, 2014. Prepare Balance Sheet :

	Rs.		Rs.
Capital	5,00,000	Sundry Creditors	1,58,000
Business Premises	2,50,000	Investments	1,00,000
Furniture	80,000	Cash	2,500
Bills receivable	12,000	Bank	75,000
Bills payable	15,000	Net Profit	1,10,500
Sundry Debtors	97,000	Closing Stock	1,67,000
			4

- (C) From the following information prepare Profit & Loss Appropriation Account :

	Rs.		Rs.
Net Profit	52,89,000	Previous years	
Interim Dividend	3,57,000	Net Profit	1,36,500
Adjustments :			
Transfer to Reserve Fund	Rs. 2,32,500		
Transfer Rs. 1,25,000 to Depreciation fund.			3

- (D) Give the proforma of 'Manufacturing Account'. 3

OR

- (E) Give the authorised proforma of Balance-Sheet of the Company. 4
- (F) Following information is available from the books of Sowatram Mills Ltd. as on 31st March, 2014 :

	Rs.		Rs.
Sales Tax	62,750	Misc. receipts	20,750
Interest	37,280	Gross Profit	4,01,250
Director's fees	30,000	General expenses	91,520

Adjustments :

Prepaid General expenses Rs. 5,000.

Outstanding Interest Rs. 12,000.

Written-off Deferred Revenue expenses Rs. 83,000.

Prepare Profit & Loss Account.

4

- (G) Prepare Profit & Loss Appropriation Account :

	Rs.		Rs.
Net Profit	44,01,100	Transfer to	
Dividend on		General Reserve	10,00,000
Preference		Dividend on	
Shares	3,50,000	Equity Shares	10,00,000

3

- (H) From the following information of Marathwada Steel Co. Ltd. prepare 'Trading Account' :

	Rs.		Rs.
Sales	2,54,405	Purchases	3,04,500
Carriage inward	5,180	Opening Stock	15,600
Stock valued at the end of the year at Rs.	1,12,500.		
Outstanding carriage inward Rs.	1,500.		3

3. (A) From the following information calculate the value of goodwill by 3 years purchase of the Super Profit Method :

- (i) Average Capital Employed in the business is Rs. 50,00,000.
- (ii) Net Trading Profit and Loss of the firm for the past four years were Rs. 12,20,000; Rs. 15,00,000; Rs. 2,00,000 (Loss) and Rs. 21,00,000.
- (iii) Expected Rate of Interest based on risk 10% p.a.
- (iv) Fair remuneration to the Director's for their service Rs. 3,60,000 per annum, not charged to Profit and Loss Account so far. 4

(B) From the following information, calculate the value of Equity Shares :

Rs.

- (i) 6,000 4% Preference Shares
of Rs. 100 each 6,00,000
 - (ii) 7,500 Equity Shares
of Rs. 100 each 7,50,000
 - (iii) Expected Profit per year (before Tax) 3,75,000
 - (iv) Income Tax Rate 50%
 - (v) Transfer to General Reserve 20% of Profit.
 - (vi) Normal Rate of Earning 12%. 4
- (C) Explain the necessity of Valuation of Shares. 3
- (D) Give the proforma of Liquidators Final Statement. 3

OR

- (E) Ascertain goodwill from the following figures according to Capitalization method :

Actual Average Profit Rs. 60,000

Normal Rate of Return 10%

Actual Average Capital Employed Rs. 4,50,000. 4

- (F) The Balance Sheet of a limited co. as on 31st March, 2014 is as under :

Liabilities	Rs.	Assets	Rs.
3,00,000 Equity		Fixed Assets	37,50,000
Shares of Rs. 10 each	30,00,000	Current Assets	15,00,000
General Reserve	6,75,000	Goodwill	3,00,000
Profit & Loss A/c	1,50,000		
12% Debentures	7,50,000		
Current Liabilities	9,75,000		
	55,50,000		55,50,000

On 31st March, 2014 the Fixed Assets were valued at Rs. 26,25,000 and Goodwill was valued at Rs. 3,75,000. Compute the value of the Co's shares by "Assets Methods". 4

- (G) Calculate Liquidators remuneration from the following information :

Rs.

Amounts available for Unsecured

Creditors and Liquidator's remuneration 25,00,000

Unsecured Creditors 25,00,000

The Liquidator is allowed 15% remuneration on amount paid to Unsecured Creditors. 3

- (H) Explain the 'Preferential Creditors' of a Company. 3

4. The Balance Sheets of A Ltd. & B Ltd. as on 31st March, 2014 were as follows :

Liabilities	A Ltd. Rs. (000)	B Ltd. Rs. (000)
Share Capital :		
50,000 Preference Shares of Rs. 100 each	5,000	—
15,00,000 Equity Shares of Rs. 10 each	15,000	—
4,00,000 Equity Shares of Rs. 10 each		4,000
	20,000	4,000
General Reserve	8,000	—
Profit & Loss A/c	900	320
Creditors	500	210
	29,400	4,530
Assets	A Ltd. Rs. (000)	B Ltd. Rs. (000)
Goodwill	—	700
Patent	2,000	—
Land & Buildings	6,000	—
Plant & Machinery	15,500	—
Motor Vehicles	—	400
Furniture	—	250
Investments	1,150	—
Stocks	3,500	2,390
Debtors	800	620
Cash at Bank	450	170
	29,400	4,530

A new 'C' Co. Ltd. was formed to acquire the assets & liabilities of A Ltd. and B Ltd. The terms of acquisition of business were as under :

- (i) C Ltd. to have an authorised share capital of Rs. 3,50,00,000 divided into 50,000, 13% Preference Shares of Rs. 100 each and 30,00,000 Equity Shares of Rs. 10 each.
- (ii) The business of A Ltd. valued at Rs. 3,00,00,000; settlement being Rs. 60,00,000 cash and balance by issue of fully-paid Equity Shares at Rs. 12 each.
- (iii) Business of B Ltd. valued at Rs. 48,00,000 will be fully settled by issue of fully-paid Equity Shares at Rs. 12 each.
- (iv) Preference Shares of A Ltd. were redeemed.
- (v) C Ltd. made a public issue of 30,000 Preference Shares at par and 3,00,000 Equity Shares at Rs. 12. They were fully sold and whole amount was received.
- (vi) D, who implemented this plan, was allotted 40,000 Equity Shares (fully paid) at Rs. 12 in consideration of his remuneration.

Pass journal entries in the books of A Ltd. and prepare the Balance Sheet of C Ltd. 14

OR

The Balance Sheet of Vidarbha Co. Ltd. and Maharashtra Co. Ltd. as on 31.3.2014 are as under :

Balance Sheet of Vidarbha Co. Ltd.

Liabilities	Rs.	Assets	Rs.
Share Capital (90,000 Shares of Rs. 270 each)	2,43,00,000	Sundry Assets	3,37,00,000
General Reserve	80,70,000	Cash	70,000
Profit & Loss A/c	3,00,000		
Sundry Creditors	11,00,000		
	3,37,70,000		3,37,70,000

Balance Sheet of Maharashtra Co. Ltd.

Liabilities	Rs.	Assets	Rs.
Share Capital (4,00,000 Shares of Rs. 150 each)	6,00,00,000	Sundry Assets	8,71,50,000
General Reserve	2,57,00,000	Cash	5,50,000
Profit & Loss A/c	7,00,000		
Sundry Creditors	13,00,000		
	8,77,00,000		8,77,00,000

It was proposed that Vidarbha Co. Ltd. be absorbed by Maharashtra Co. Ltd. and the following arrangements were accepted by them :

The holder of every three shares in Vidarbha Co. Ltd. was to received five shares in Maharashtra Co. Ltd. plus as much cash as is necessary to adjust the right of shareholders of both the companies in accordance with the intrinsic value of shares as per their Balance Sheets.

Show the working of Purchase consideration and give journal entries in the books of Maharashtra Co. Ltd. affecting the above transactions and prepare Balance Sheet of Maharashtra Co. Ltd. after absorption. 14

5. Following are the Balance Sheet of 'X' Co. Ltd. as on 31st March, 2013 and 31st March 2014 :

Liabilities	Rs.	Rs.
	31 March 2013	31 March 2014
Share Capital	10,00,000	12,50,000
Profit & Loss Account	1,52,500	1,53,000
Trade Creditors	7,50,000	6,76,000
General Reserve	2,50,000	3,00,000
Short Term Bank Loan	3,50,000	—
Tax Provision	1,50,000	1,75,000
	26,52,500	25,54,000

Assets	Rs.	Rs.
	31 March 2013	31 March 2014
Plant and Machinery	7,50,000	8,70,000
Bank	—	40,000
Cash	2,500	3,000
Land & Building	10,00,000	9,50,000
Stock in Trade	5,00,000	3,70,000
Sundry Debtors	4,00,000	3,21,000
	26,52,500	25,54,000

Adjustments :

- (1) Depreciation is charged on Plant Rs. 70,000.
- (2) Dividend paid Rs. 1,00,000.
- (3) Provision for Taxation is made Rs. 1,25,000.
- (4) A plot of Land is sold at cost.

Prepare :

- (1) Statement showing changes in Working Capital.
- (2) Fund Flow Statement. 14

OR

The financial position of the Gujarat Co. Ltd. as on 31st March, 2013 and 31st March, 2014 is as follows :

	Rs.	Rs.
Liabilities	31 March 2013	31 March 2014
Equity Share Capital	7,00,000	7,40,000
12% Debentures	1,20,000	60,000
Trade Creditors	1,03,600	1,18,400
Profit & Loss Account	1,00,400	1,05,600
R.D.D.	7,000	8,000
	10,31,000	10,32,000
Assets	31 March 2013	31 March 2014
Land	2,00,000	3,00,000
Cash	90,000	78,000
Goodwill	1,00,000	50,000
Stock in Trade	4,92,000	4,27,000
Sundry Debtors	1,49,000	1,77,000
	10,31,000	10,32,000

Adjustments :

- (1) Dividend paid Rs. 70,000.
- (2) Land purchased Rs. 1,00,000.
- (3) Goodwill written off Rs. 50,000
- (4) Debentures redemption Rs. 60,000.

Prepare :

- (1) Statement showing changes in working capital.
- (2) Fund Flow Statement. 14

(मराठी माध्यम)

सूचना :—(1) सर्व प्रश्न सोडवा.

(2) सर्व प्रश्नांना समान गुण आहेत.

1. (अ) रजत कं. लि. चे अधिकृत भागभांडवल रु. 20,00,000 असून ते प्रत्येकी 100 रु.च्या समता भागात विभागलेले आहे. त्यापैकी कं. ने 10,000 भाग प्रत्येकी रु. 20 प्रव्याजीवर विक्रीस काढले व रकमा खालील प्रमाणे मागविल्या :
- अर्जासोबत प्रत्येकी रु. 35 प्रमाणे व भागवाटपावर उर्वरीत राशी (प्रव्याजीसह) एकूण 12760 भागांची मागणी करणारे अर्ज आले. पैकी कंपनीने 760 भागांची मागणी करणारे अर्ज नामंजूर करून त्यावरील आवेदन शुल्क परत केले व उरलेल्या अर्जांना सप्रमाण भाग वाटप केले. सर्व रकमा मागविल्या व 500 भागांवरील आवंटन राशी वगळता सर्व रकमा मिळाल्या.

किर्दनोंदी द्या.

4

- (ब) रत्नाने स्वाती इंजि. कं. लि. चे 500 समता भाग धारण केले आहेत. त्यांचे दर्शनी मूल्य प्रत्येकी रु. 100 असून ते 5% कसरीवर निर्गमीत करण्यात आले आहेत. रत्नाने अर्जासोबतचे प्रत्येकी रु. 20 प्रमाणे व भागवाटपावरील प्रत्येकी रु. 30 प्रमाणे (कसर समायोजित करून) भरले आहेत. परंतू प्रथम हप्ता मागणी प्रत्येकी रु. 30 प्रमाणे व अंतिम हप्ता मागणी उर्वरीत भरू शकली नाही. प्रमंडळाने अंतिम हप्ता मागणीनंतर तिचे भाग जप्त करण्याचा निर्णय घेतला व सर्व जप्त भाग प्रितीला प्रत्येकी रु. 70 प्रमाणे पुनर्निर्गमीत केले.

प्रमंडळाच्या पुस्तकात भागांच्या जप्तीसाठी व पुनर्निर्गमणाच्या किर्दनोंदी द्या.

4

(क) 'जय कं. लि.' ने 1,00,000 भाग प्रतीभाग रु. 100 प्रमाणे रु. 5 प्रव्याजीवर निर्गमीत केले. भागावर राशी खालील प्रमाणे देय होती :

अर्जासोबत प्रतिभाग रु. 20

वाटपावर प्रतिभाग रु. 30 (प्रव्याजीसह)

प्रथमयाचना प्रतिभाग रु. 30

उर्वरीत अंतिम हप्ता मागणीवर.

संपूर्ण भाग खपले आणि संपूर्ण राशी प्राप्त झाली.

'अधिकोष खाते' तयार करा.

3

(ड) भारतीय प्रमंडळ अधिनियमातील तरतूदीनुसार प्रमंडळ कोणत्या प्रकारचे अंश निर्गमीत करू शकते ? 3

किंवा

(इ) शाइन कं. लि. ने रु. 100 दर्शनी मुल्याचे 5,00,000 भाग सममुल्यावर विक्रीला काढले व रकमा खालील प्रमाणे मागविल्या :

अर्जासोबत प्रतिभाग रु. 20

आवंटनावर प्रतिभाग रु. 20

प्रथम हप्तामागणीवर प्रतिभाग रु. 30

अंतिम हप्तामागणीवर प्रतिभाग रु. 30

रमण ज्यांचेजवळ 1000 भाग आहेत. त्याने प्रथम व

अंतिम हप्ता मागणीची रक्कम न भरल्यामुळे त्याचे भाग

जप्त करण्यात आले. जप्त करण्यात आलेले सर्व भाग

रु. 90 पूर्ण वसूली मुल्यावर पुनर्निर्गमीत करण्यात आले.

भागाच्या जप्तीच्या व पुनर्निर्गमणाच्या किर्दनोंदी द्या.

4

(फ) शारंगधर कं. लि. ने 2,00,000 समता भाग प्रत्येकी रु. 100 च्या प्रत्येकी रु. 20 प्रव्याजीवर विक्रीस काढले. अटी खालील प्रमाणे :

अर्जासोबत रु. 20 प्रत्येकी

आवंटनावर रु. 40 प्रत्येकी (प्रव्याजीसह)

प्रथम हप्तामागणीवर रु. 30 प्रत्येकी

अंतिम हप्तामागणीवर रु. 30 प्रत्येकी

सर्व भाग खपले, बोलावले व प्राप्त झाले.

भांडवल खाते तयार करा.

4

- (ग) महाराष्ट्र ॲलॉय कं. लि. ने रु. 100 दर्शनी मुल्याचे 10,00,000 समता भाग 5% कसरीवर विक्रीला काढले. व रकमा खालील प्रमाणे मागविल्या;

अर्जासोबत रु. 45 प्रत्येकी व उर्वरीत रक्कम भागवाटपावर (कसर समायोजित करून).

9,00,000 भागांकरीता अर्ज झाले. ज्यावर सर्व रकमा मागविल्या व प्राप्त झाल्या.

कं. च्या पुस्तकात किर्दनोंदी द्या.

3

- (ह) रॉयल कं. लि. ची स्थापना रु. 20,00,000 च्या अधिकृत भाग भांडवलाने झाली असून ते प्रत्येकी रु. 10 च्या 2,00,000 समता भागात विभागलेले आहे. प्रमंडळाने त्यापैकी 1,40,000 भाग विक्रीस काढले व त्यावर खालील प्रमाणे रकमा मागविल्या :

अर्जासोबत प्रत्येकी रु. 3 प्रमाणे

भागवाटपावर प्रत्येकी रु. 7 प्रमाणे

2,00,000 भागांची मागणी करणारे अर्ज प्राप्त झाले.

प्रमंडळाच्या संचालक मंडळाने त्यापैकी 10,000 भागांची मागणी करणारे अर्ज पूर्णतः नामंजूर करून त्यावरील

आवेदन राशी परत करण्यात आली. 40,000 भागांची

मागणी करणाऱ्या अर्जदारांना त्यांच्या मागणीप्रमाणे पूर्ण भागवाटप करण्यात आले.

उर्वरीत अर्जदारांना सप्रमाण भागवाटपाच्या तत्वावर भागवाटप करण्यात आले. सर्व हप्ते मागाण्या करण्यात आल्या व वेळेत प्राप्त झाल्या असे गृहीत धरून प्रमंडळाच्या पुस्तकात किर्दनोंदी द्या. 3

2. (अ) 31 मार्च, 2014 रोजी संपणाऱ्या वर्षाकरीता यशोधन कं. लि.च्या पुस्तकातून खालील माहिती प्राप्त झाली. त्यावरून लाभालाभ लेखा तयार करा :

	रु.	रु.
कमिशन दिले	40,000 अग्नी विमा	40,000
भाग हस्तांतरण शुल्क	60,000 भाडे व कर	35,000
न.प. कर दिला	20,000 अवक्षयण	50,000
व्यापार खर्च	4,40,000 बुडीत कर्ज	20,000
सकल लाभ	26,50,000 निर्गत वाहन व्यय	3,50,000
वेतन	6,00,000 प्रवास खर्च	20,000
लाभांश प्राप्त	1,20,000 मुद्रण लेखण सामग्री	20,000
कमिशन प्राप्त	1,40,000	4

- (ब) राधेश्याम ट्रेडिंग कं.च्या पुस्तकातून 31 मार्च, 2014 ची खालील माहिती प्राप्त झाली आहे. ताळेबंद तयार करा :

	रु.	रु.
भांडवल	5,00,000 विविध धनको	1,58,000
व्यावसायिक परिसर	2,50,000 गुंतवणूक	1,00,000
फर्निचर	80,000 रोख	2,500
प्राप्य विपत्रे	12,000 अधिकोष	75,000
देय विपत्रे	15,000 शुद्धलाभ	1,10,500
विविध ऋणको	97,000 अंतिम स्कंध	1,67,000
		4

(क) खालील माहितीवरून लाभालाभ नियोजन लेखा तयार करा :

	रु.	रु.
निवळ नफा	52,89,000	मागील वर्षाचा
मध्य लाभांश	3,57,000	शुद्धलाभ 1,36,500
समायोजना :		

राखिव निधीला स्थानांतरण करा रु. 2,32,500.

अवमुल्यन प्रणिवीला रु. 1,25,000

स्थानांतरीत करा. 3

(ड) 'उत्पादन पत्रकाचे' प्रारूप द्या. 3

किंवा

(इ) प्रमंडळाच्या ताळेबंदाचे अधिकृत प्रारूप द्या. 4

(फ) सावतराम मिल्स लि. च्या पूस्तकातून 31 मार्च, 2014 रोजी खालील माहिती प्राप्त झाली :

	रु.	रु.
विक्री कर	62,750	किरकोळ प्राप्ती 20,750
ब्याज	37,280	सकल लाभ 4,01,250
संचालक शुल्क	30,000	सामान्य व्यय 91,520

समायोजना :

पूर्वदत्त सामान्य व्यय रु. 5,000.

अदत्त ब्याज रु. 12,000.

आस्थगित आगम व्ययाचे अपलेखन रु. 83,000.

लाभालाभ लेखा तयार करा. 4

(ग) लाभालाभ नियोजन लेखा तयार करा :

	रु.		रु.
निवळ नफा	44,01,100	सामान्य संचितीला	
पूर्वाधिकार		स्थानांतरण	10,00,000
भागावर		समता भागावर	
लाभांश	3,50,000	लाभांश	10,00,000
			3

(ह) मराठावाडा स्टिल कं.लि. च्या खालील माहितीवरून 'व्यापार पत्रक' तयार करा :

	रु.		रु.
विक्री	2,54,405 खरेदी		3,04,500
आगतवाहन व्यय	5,180 प्रारंभण स्कंध		15,600
वर्षाखेर स्कंधाचे मुल्यांकन	रु. 1,12,500 होते.		
आगत वाहन व्यायाचे	रु. 1,500 अदत्त आहेत.		3

3. (अ) खालील माहितीच्या आधारे ख्यातीचे मुल्यांकन तिन वर्षांच्या खरेदीच्या आधारे' अतिरिक्त नफा पद्धती' ने करा :

- व्यापारात गुंतविलेले सरासरी भांडवल रु. 50,00,000.
- सार्थेचा मागिल 4 वर्षांचा व्यापारी नफा आणि तोटा पूढील प्रमाणे रु. 12,20,000, रु. 15,00,000, रु. 2,00,000 (तोटा) आणि रु. 21,00,000.
- जोखीमेच्या आधारावर अंदाजित ब्याजाचा दर 10% प्रतिवर्ष.

(iv) संचालकाना देय त्यांच्या सेवेचा योग्यमो बदला जो अजून पर्यंत लाभालाभ लेख्यात आकारला नाही रु. 3,60,000 वार्षिक. 4

(ब) खालील माहितीवरून सामान्य भागाचे मुल्य शोधून काढा :

रु.

(i) 6,000, 4% पूर्वाधिकार भाग प्रतिभाग
रु. 100 6,00,000

(ii) 7,500 सामान्य भाग प्रतिभाग
रु. 100 7,50,000

(iii) अपेक्षित नफा प्रतिवर्ष
(कर आकारणी पूर्वीचा) 3,75,000

(iv) आयकराचा दर 50%

(v) सामान्य संचितीला स्थानांतरण नफ्याच्या 20%.

(vi) मिळकतीचा सामान्य दर 12%. 4

(क) भागाच्या मुल्यांकनाची आवश्यकता स्पष्ट करा. 3

(ड) निस्तारकाच्या अंतिम लेखा विवरणाचे प्रारूप द्या. 3

किंवा

(इ) खालील आकड्यांवरून भांडवलीकरण पद्धतीने ख्यातीची राशी आगणीत करा :

वास्तविक सरासरी नफा रु. 60,000

सामान्य उत्पन्नाचा दर 10%.

वास्तविक गुंतविलेले सरासरी भांडवल रु. 4,50,000.

4

(फ) 31 मार्च 2014 रोजी एका कं. चा ताळेबंद खालील प्रमाणे आहे :

देयता	रु.	संपत्ती	रु.
3,00,000 समता भाग		स्थिर संपत्ती	37,50,000
प्रत्येकी रु. 10 चा	30,00,000	चल संपत्ती	15,00,000
सामान्य निधी	6,75,000	ख्याती	3,00,000
नफातोटा खाते	1,50,000		
12% कर्जरोखे	7,50,000		
चल देयता	9,75,000		
	55,50,000		55,50,000

31 मार्च, 2014 ला स्थिर संपत्तीचे मुल्यांकन रु. 26,25,000 आणि ख्यातीचे मुल्यांकन रु. 3,75,000 करण्यात आले. संपत्ती मुल्यांकन पद्धतीने भागांचे मुल्य निश्चित करा.

4

(ग) निस्तारकाला द्यावयाच्या पारिश्रमिकाचे खालील माहितीवरून आगणन करा :

अप्रतिभूत उत्तमर्ण व निस्तारकाच्या पारिश्रमिकासाठी उपलब्ध असलेली राशी रु. 25,00,000

अप्रतिभूत धनको रु. 25,00,000

अप्रतिभूत उत्तमर्णांना दिल्या जाणाऱ्या राशीवर निस्तारकाचा पारिश्रमिक दर 15% आहे.

3

(ह) कंपनीचे अग्रहक्काचे (पूर्वाधिकार) धनको स्पष्ट करा.

3

4. अ लि. व ब लि. चे 31 मार्च 2014 रोजीचे ताळेबंद खालील प्रमाणे होते :

देयता	'अ' लि. रु. (000)	'ब' लि. रु. (000)
भागभांडवल :		
50,000 पूर्वाधिकार भाग प्रति रु. 100 चे	5,000	—
15,00,000 समता भाग प्रति रु. 10 चे	15,000	—
4,00,000 समता भाग प्रति रु. 10 चे	—	4,000
	20,000	4,000
सामान्य संचिती	8,000	—
लाभालाभ लेखा	900	320
धनको	500	210
	29,400	4,530

संपत्ती	'अ' लि. रु. (000)	'ब' लि. रु. (000)
ख्याती	—	700
एकस्वाधिकार	2,000	—
भूमी व इमारती	6,000	—
यंत्रे व संयंत्रे	15,500	—
मोटर गाड्या	—	400
फर्निचर	—	250
गुंतवणूक	1,150	—
स्कंध	3,500	2,390
ऋणको	800	620
अधिकोषस्थ रोक	450	170
	29,400	4,530

अ लि. व ब लि. च्या सर्व संपत्ती व देयता घेण्याकरीता क लि. या नविन कंपनीची स्थापना करण्यात आली. व्यापार खरेदीच्या अटी खालील प्रमाणे होत्या :

- (i) क लि. चे अधिकृत भागभंडवल रु. 3,50,00,000, असून ते 50,000, 13% पूर्वाधिकार भाग प्रतिभाग रु. 100 व 30,00,000 समता भाग प्रतिभाग रु. 10 मध्ये विभागलेले आहे.
 - (ii) अ लि. च्या व्यापाराचे मुल्य रु. 3,00,00,000, ठरविण्यात आले, शोधन रोख रु. 60,00,000 व उर्वरीत रकमेचे शोधन पूर्ण वसूल समता भागात प्रतिभाग रु. 12 मुल्य लावून करण्यात आले.
 - (iii) ब लि. च्या व्यापाराचे मुल्य रु. 48,00,000 लावण्यात आले. ज्याचे संपूर्ण शोधन पूर्ण वसूल समता भागाच्या रूपात प्रतिभाग रु. 12 मुल्य लाऊन करण्यात आले.
 - (iv) अ लि. च्या पूर्वाधिकार भागांचे शोधन करण्यात आले.
 - (v) क लि. ने 30,000 पूर्वाधिकार भाग सममुल्यावर आणि 3,00,000 समता भाग प्रतिभाग रु. 12 प्रमाणे खुल्या बाजारात विक्रीस काढले. ते सर्व खपले व पूर्ण रक्कम वसूल झाली.
 - (vi) 'ड' ज्यांनी ही योजना प्रत्यक्षात आणली त्यांना त्यांच्या कामाचा मोबदला म्हणून 40,000 समता भाग (पूर्ण वसूल) प्रत्येकी रु. 12 मुल्यावर निर्गमित करण्यात आले.
- वरील व्यवहारांच्या नोंदी अ लि. च्या पुस्तकांत करा व क लि. च्या ताळेबंद तयार करा.

14

किंवा

31.3.2014 रोजीचे विदर्भ कं. लि. आणि महाराष्ट्र कं. लि. चे ताळेबंद पूढील प्रमाणे आहेत :

विदर्भ कं. लि. चा ताळेबंद

देयता	रु.	संपत्ती	रु.
भाग भांडवल (90,000 भाग प्रत्येकी रु. 270 चा)	2,43,00,000	विविध संपत्ती रोख	3,37,00,000 70,000
सामान्य निधी	80,70,000		
लाभालाभ लेखा	3,00,000		
विविध धनको	11,00,000		
	3,37,70,000		3,37,70,000

महाराष्ट्र कं. लि. चा ताळेबंद

देयता	रु.	संपत्ती	रु.
भाग भांडवल (4,00,000 भाग प्रत्येकी रु. 150 चा)	6,00,00,000	विविध संपत्ती रोख	8,71,50,000 5,50,000
सामान्य निधी	2,57,00,000		
लाभालाभ लेखा	7,00,000		
विविध धनको	13,00,000		
	8,77,00,000		8,77,00,000

महाराष्ट्र कं. लि. ने विदर्भ कं. लि. संविलयन करून घेण्याचे ठरविले. त्याकरीता खालील बाबी मान्य करण्यात आल्या आहेत :

विदर्भ कं. लि. च्या भागधारकाला प्रत्येक 3 भागांकरीता महाराष्ट्र कं. लि. चे 5 भाग मिळतील व दोन्ही कंपन्यांच्या भागधारकांना त्यांच्या स्थितीविवरणातील भागांच्या आंतरिक मुल्यानुसार भाग धारकांना हक्क समायोजित करण्या एवढी रोख रक्कम दिली जाईल. क्रय प्रतिफलाचे आगणन करून महाराष्ट्र कं. लि. च्या पुस्तकांत किर्दनोंदी देऊन तिचा संविलयनानंतरचा ताळेबंद तयार.

14

5. कं. लि. ची 31 मार्च, 2013 व 31 मार्च, 2014 रोजीची स्थितीविवरणे खालील प्रमाणे आहेत :

देयता	रु. 31 मार्च 2013	रु. 31 मार्च 2014
भाग भांडवल	10,00,000	12,50,000
लाभालाभ लेखा		1,52,500
1,53,000		
व्यापारी उत्तमर्ण	7,50,000	6,76,000
सामान्य संचिती	2,50,000	3,00,000
अल्पकालीन अधिकोष ऋण	3,50,000	—
कर तरतूद	1,50,000	1,75,000
	26,52,500	25,54,000

संपत्ति	रु. 31 मार्च 2013	रु. 31 मार्च 2014
यंत्रे व संयंत्रे	7,50,000	8,70,000
अधिकोष	—	40,000
रोख	2,500	3,000
भूमी आणि इमारती	10,00,000	9,50,000
व्यापारी स्कंध	5,00,000	3,70,000
विविध ऋणको	4,00,000	3,21,000
	26,52,500	25,54,000

समायोजना :

- (1) संयंत्रावर अवक्षयण आकारले रु. 70,000.
- (2) लाभांश दिला रु. 1,00,000.
- (3) करासाठी तरतूद केली रु. 1,25,000.
- (4) एक भूखंड लागत मुल्यावर विकला.

तयार करा :

- (1) कार्यशिल पूंजीत परिवर्तन दर्शविणारे विवरण.
- (2) निधी प्रवाह विवरण.

14

किंवा

गुजरात कं. लि. ची 31 मार्च, 2013 व 31 मार्च, 2014 ची आर्थिक स्थिती खालील प्रमाणे आहे :

देयता	रु. 31 मार्च 2013	रु. 31 मार्च 2014
समता भाग भांडवल	7,00,000	7,40,000
12% कर्ज रोखे	1,20,000	60,000
व्यापारी उत्तमर्ण	1,03,600	1,18,400
लाभालाभ लेखा	1,00,400	1,05,600
संदिग्ध ऋणार्थ संचिती	7,000	8,000
	10,31,000	10,32,000

संपत्ति	रु. 31 मार्च 2013	रु. 31 मार्च 2014
भूमी	2,00,000	3,00,000
रोख	90,000	78,000
ख्याती	1,00,000	50,000
व्यापारी स्कंध	4,92,000	4,27,000
विविध अधमर्ण	1,49,000	1,77,000
	10,31,000	10,32,000

समायोजन :

- (1) लाभांश दिला रु. 70,000.
- (2) भूमी खरेदी रु. 1,00,000.
- (3) ख्यातीचे अपलेखन रु. 50,000.
- (4) कर्जरोख्यांची परतफेड रु. 60,000.

तयार करा :

- (1) कार्यशिल पूंजीत परिवर्तन दर्शविणारे विवरण.
- (2) निधी प्रवाह विवरण.

14

(हिन्दी माध्यम)

सूचना :—(1) सभी प्रश्न हल कीजिए।

(2) सभी प्रश्नों के अंक समान हैं।

1. (अ) रजत कं. लि. की अधिकृत अंशपूँजी रु. 20,00,000 है, जो प्रतिअंश रु. 100 के सामान्य अंशों में विभाजित है। जिनमें से कं. द्वारा 10,000 अंश प्रतिअंश रु. 20 प्रव्याजी पर निर्गमित किये गये। निम्नानुसार राशियाँ मंगाई गयी :

आवेदन के साथ प्रतिअंश रु. 35

बकाया आबंटन पर (प्रव्याजी के साथ)

12760 अंशों की माँग के लिए आवेदन प्राप्त हुए। उसमें से कंपनी द्वारा 760 अंशों की माँगवाले आवेदन नामंजूर करके उनकी आवेदन राशी लौटाई गयी। बचे हुए आवेदनों को सप्रमाण आबंटन किया गया। संपूर्ण राशियाँ मंगाई गयी तथा 500 अंशों पर आबंटन राशी छोड़कर सभी राशियाँ प्राप्त हुयी। पूंजीप्रविष्टियाँ कीजिए। 4

- (ब) रत्ना, स्वाती इंजि. कं. लि. के 500 अंशों की धारक है। जिनका दर्शनी मूल्य प्रतिअंश रु. 100 है, और जो 5% अपहार पर निर्गमित है। उन्होंने आवेदन के साथ

प्रतिअंश रू. 20 और आबंटन पर प्रतिअंश रू. 30 (अपहार समायोजित करके) भर दिये हैं। लेकिन प्रथम याचना राशी रू. 30 और बकाया अंतिम याचना भरने में असमर्थ रही। इसलिए कं. ने उनके अंश जब्त कर लिए। सभी जब्त अंश प्रीति को प्रतिअंश रू. 70 से (पूर्णदत्त) पुनर्निर्गमित किये गये।

कंपनी की पुस्तक में पंजी प्रविष्टियाँ कीजिए। 4

- (क) 'जय कं. लि.' ने 1,00,000 अंश प्रतिअंश रू. 100 मूल्य से रू. 5 प्रव्याजी के साथ निर्गमित किये। अंशों पर राशी निम्न प्रकार से देय थी :

आवेदन पर प्रतिअंश रू. 20

अंश आबंटन पर प्रतिअंश रू. 30 (प्रव्याजी के साथ)
प्रथम याचना पर प्रतिअंश रू. 30

शेष अंतिम याचना पर

सभी अंश बेचे गये और पूरी राशी प्राप्त हुई।
'अधिकोष खाता' तैयार कीजिए। 3

- (ड) भारतीय प्रमंडल अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार प्रमंडल किन प्रकार के अंशों का निर्गमन कर सकते हैं ? 3

अथवा

- (इ) शाइन कं. लि. ने 5,00,000 सामान्य अंश प्रतिअंश रू. 100 मूल्य का सममूल्य पर निर्गमित किये। राशी निम्नानुसार देय थी :

आवेदन के साथ प्रतिअंश रू. 20

आबंटन पर प्रतिअंश रू. 20

प्रथम याचना प्रतिअंश रू. 30

अंतिम याचना प्रतिअंश रू. 30

रमण, जो 1000 अंशों के धारक है, प्रथम और अंतिम याचना राशी नहीं भर पाये, इसलिए उनके अंश जब्त कर लिये गये। सभी जब्त अंश प्रतिअंश रू. 90 से (पूर्ण दत्त) पुनर्निर्गमित किये गये।

अंश जब्ती और पुनर्निर्गमन की पंजी प्रविष्टियाँ कीजिये।

4

(फ) शारंगधर कं. लि. द्वारा 2,00,000 सामान्य अंश प्रतिअंश रू. 100 का प्रति अंश रू. 20 प्रव्याजी पर निर्गमित किये गये। शर्तें निम्नानुसार थी :

आवेदन के साथ प्रतिअंश रू. 20

आबंटन पर प्रतिअंश रू. 40 (प्रव्याजी के साथ)

प्रथम याचना प्रतिअंश रू. 30

अंतिम याचना प्रतिअंश रू. 30

सभी अंश निर्गमित, प्रार्थित तथा दत्त हुये। पूँजीखाता तैयार कीजिए।

4

(ग) महाराष्ट्र अलॉय कं. लि. द्वारा 10,00,000 अंश प्रतिअंश रू. 100 दर्शनी मूल्य का 5% अपहार पर निर्गमित किये गये। राशीयाँ निम्नानुसार मँगाई गयी :

आवेदन के साथ प्रतिअंश रू. 45

आबंटन पर प्रतिअंश बकाया राशी (अपहार के समायोजन के साथ)।

9,00,000 अंशों की माँग के लिए आवेदन प्राप्त हुये।

जिनपर संपूर्ण राशियों की माँग की गयी और संपूर्ण राशी प्राप्त हो गई।

कम्पनी की पुस्तक में पूँजी प्रविष्टियाँ कीजिए।

3

(ह) रॉयल कं. लि. की स्थापना प्रतिअंश रू. 10 मूल्य के 2,00,000 अंशों में विभाजित रू. 20,00,000 के अधिकृत अंश पूँजी से हुयी। कं. द्वारा 1,40,000 अंश

निर्गमित किये गये। जिन पर निम्नानुसार राशियाँ मँगाई गयी :

आवेदन के साथ प्रतिअंश रु. 3

आबंटन पर प्रतिअंश रु. 7

2,00,000 अंशों की मांग के लिए आवेदन प्राप्त हुये। कं. के संचालक मंडल द्वारा 10,000 अंशों की मांग करने वाले आवेदन नामंजूर करके उनकी आवेदन राशी लौटाई गयी। 40,000 अंशों के आवेदकों को उनकी मांग के अनुसार पूर्ण आबंटन किया गया। बचे हुये आवेदनों पर सप्रमाण आबंटन किया गया। यह मानकर कि सभी याचनाएँ की गयी और प्राप्त हुयी, कं. की पुस्तक में पंजी प्रविष्टियाँ दीजिए। 3

2. (अ) 31 मार्च, 2014 को समाप्त वर्ष के लिए यशोधन कं. के निम्नांकित शेषों से लाभालाभ लेखा तैयार कीजिए :

	रु.	रु.
दत्त कमीशन	40,000 अग्नि बीमा प्रव्याजी	40,000
अंश हस्तांतरण शुल्क	60,000 किराया तथा कर	35,000
पालिका निगम कर दिया	20,000 अवक्षयन	50,000
व्यापार व्यय	4,40,000 अशोध्य ऋण	20,000
सकल लाभ	26,50,000 निर्गत वाहन व्यय	3,50,000
वेतन	6,00,000 यातायात व्यय	20,000
लाभांश प्राप्त	1,20,000 मुद्रण लेखन सामग्री	20,000
कमीशन प्राप्त	1,40,000	4

(ब) 31 मार्च, 2014 को राधेश्याम ट्रेडींग कं. की पुस्तक से निम्न शेष प्राप्त हुये। स्थितीविवरण तैयार कीजिए :

	रु.	रु.
पूँजी	5,00,000 विघ उत्तमर्ण	1,58,000
व्यावसायिक परिसर	2,50,000 विनियोग	1,00,000
फर्निचर	80,000 रोक	2,500
प्राप्य विपत्रे	12,000 अधिकोष	75,000
देय विपत्रे	15,000 शुद्धलाभ	1,10,500
विविध अघमर्ण	97,000 अंतिम स्कंध	1,67,000
		4

(क) निम्न जानकारी से लाभालाभ समायोजन लेखा तैयार कीजिए :

	रु.	रु.
शुद्ध लाभ	52,89,000 गतवर्ष का	
मध्य लाभांश	3,57,000 शुद्धलाभ	1,36,500

समायोजनाएँ :

सामान्य संचिती में स्थानांतरण रु. 2,32,500।

अवमुल्यन प्रणिवी में स्थानांतरण रु. 1,25,000।

3

(ड) 'निर्माणी लेखा' का प्रारूप दीजिए।

3

अथवा

(इ) प्रमंडल के स्थितीविवरण का अधिकृत प्रारूप दीजिए।

4

- (फ) सावताराम मिल्स लि. की पुस्तक में से निम्नशेष 31 मार्च, 2014 को प्राप्त हुये :

	रु.		रु.
विक्री कर	62,750	खुदरा आय	20,750
वृद्धि	37,280	सकल लाभ	4,01,250
संचालक शुल्क	30,000	सामान्य व्यय	91,250

समायोजनाएँ :

पूर्वदत्त सामान्य व्यय रु. 5,000।

अदत्त वृद्धि रु. 12,000।

अस्थगित आगम व्यय का अपलेखन रु. 83,000।

लाभालभ लेखा तैयार कीजिए। 4

- (ग) लाभालाभ समायोजन लेखा तैयार कीजिए :

	रु.		रु.
शुद्ध लाभ	44,01,100	सामान्य संचिती में	
पूर्वाधिकार		स्थानांतरण	10,00,000
अंशपूजी पर		सामान्य अंशपूजी	
लाभांश	3,50,000	पर लाभांश	10,00,000

3

- (ह) मराठवाडा स्टील कं.की. निम्न जानकारी से व्यापार लेखा तैयार कीजिए :

	रु.		रु.
विक्री	2,54,405	क्रय	3,04,500
आगत वाहन व्यय	5,180	प्रारंभण स्कंध	15,600
साल के अंत में स्कंध का मूल्य रु. 1,12,500		आँका गया।	
अदत्त आगत वाहन व्यय रु. 1,500।			3

3. (अ) निम्नलिखित सूचनाओं के आधार पर साख का मूल्य तीन साल के खरेदी के बराबर अतिरिक्त लाभ विधि से कीजिए :

- (i) व्यापार में विनियोजित औसत पूंजी रु. 50,00,000।
- (ii) कम्पनी पिछले चार वर्षों का व्यापारिक नफा-नुकसान इस प्रकार से था : रु. 12,20,000, रु. 15,00,000, रु. 2,00,000 (नुकसान) और रु. 21,00,000।
- (iii) जोखिम के आधार पर अनुमानित ब्याज की दर 10% प्रतिवर्ष।
- (iv) संचालक को देय उनकी सेवाओं के प्रतिफल स्वरूप उचित पारिश्रमिक रु. 3,60,000 सालाना जो की अभी तक लाभ-हानि खातों में समायोजित नहीं किया गया। 4

- (ब) निम्नांकित जानकारी से समता अंश का मूल्य निकालिये :

रु.

- (i) 6,000 4% पूर्वाधिकार अंश प्रतिअंश
रु. 100 का 6,00,000
- (ii) 7,500 समता अंश प्रतिअंश
रु. 100 का 7,50,000
- (iii) अपेक्षित नफा प्रतिवर्ष
(कर निर्धारण पूर्व का) 3,75,000
- (iv) आयकर दर 50%
- (v) सामान्य संचय में स्थानांतरण लाभ के 20%
- (vi) प्राप्ति की सामान्य दर 12%। 4

- (क) अंश के मूल्यांकन की आवश्यकता स्पष्ट कीजिए। 3
(ड) निस्तारक के अंतिम विवरण का प्रारूप दीजिए। 3

अथवा

- (इ) निम्नलिखित आंकड़ों से पूंजीकरण विधि के अनुसार ख्याति की राशी ज्ञात कीजिए :

वास्तविक औसत लाभ रु. 60,000

सामान्य आय की दर 10%

वास्तविक विनियोजित औसत पूंजी रु. 4,50,000।

4

- (फ) 31 मार्च 2014 को एक सीमित कं. का स्थितिविवरण निम्नलिखित है :

देयता	राशी रु.	संपत्ति	राशी रु.
3,00,000 सामान्य		स्थिर संपत्ति	37,50,000
अंश प्रतिअंश रु. 10	30,00,000	चल संपत्ति	15,00,000
सामान्य संचिती	6,75,000	ख्याति	3,00,000
लाभहानि लेखा	1,50,000		
12% ऋणपत्र	7,50,000		
चल देयता	9,75,000		
	55,50,000		55,50,000

31 मार्च, 2014 को स्थिर संपत्तियों का मूल्यांकन रु. 26,25,000 तथा ख्याति का मूल्यांकन रु. 3,75,000 किया गया। संपत्ति विधि द्वारा कंपनी के अंशों के मूल्य की गणना कीजिए। 4

(ग) निम्नलिखित जानकारी से निस्तारक को देय पारिश्रमिक का आगणन कीजिए :

अप्रतिभूत उत्तमर्ण और निस्तारक को

पारिश्रमिक के लिए उपलब्ध राशि रु. 25,00,000

अप्रतिभूत उत्तमर्ण रु. 25,00,000

अप्रतिभूत उत्तमर्ण को दी जाने वाली राशि पर निस्तारक का पारिश्रमिक 15% है। 3

(ह) कंपनी के पूर्वाधिकार धन को स्पष्ट कीजिए। 3

4. अ लि. व ब लि. के 31 मार्च 2014 के स्थितिविवरण निम्नलिखित है :

देयता	'अ' लि. रु. (000)	'ब' लि. रु. (000)
अंशपूँजी :		
50,000 पूर्वाधिकार अंश प्रतिअंश रु. 100	5,000	—
15,00,000 समता अंश प्रतिअंश रु. 10	15,000	—
4,00,000 समता अंश प्रतिअंश रु. 10	—	4,000
	20,000	4,000
संचिती प्रणिवी	8,000	—
लाभालाभ लेखा	900	320
उत्तमर्ण	500	210
	29,400	4,530

संपत्ती	अ लि. रु. (000)	ब लि. रु. (000)
ख्याती	—	700
पेटेंट	2,000	—
भूमी एवं भवन	6,000	—
यंत्र व संयंत्र	15,500	—
मोटर गाडी	—	400
फर्निचर	—	250
विनियोग	1,150	—
स्कंध	3,500	2,390
अधमर्ण	800	620
अधिकोष रोक	450	170
	29,400	4,530

अ लि. एवं ब लि. ने समिश्रण करने का निर्णय लेकर "क लि." की स्थापना की। व्यापार खरेदी की शर्तें निम्नानुसार थीं :

- (i) क लि. की अधिकृत अंशपूँजी रु. 3,50,00,000 होगी जो 50,000, 13% पूर्वाधिकार अंश प्रतिअंश रु. 100 एवं 30,00,000 समता अंश प्रतिअंश रु. 10 में विभाजित है।
- (ii) अ लि. का व्यापार मूल्य रु. 3,00,00,000 तय किया गया। क्रय प्रतिफल का भुगतान रु. 60,00,000 रोक एवं शेष भुगतान पूर्णदत्त समता अंश प्रतिअंश रु. 12 मूल्य लगाकर किया गया।
- (iii) ब लि. मूल्य रु. 48,00,000 आँका गया जिसका पूर्णतया भुगतान पूर्णदत्त समता अंश प्रतिअंश रु. 12 मूल्य लगाकर किया गया।

- (iv) अ लि. के पूर्वाधिकार अंशों का भुगतान किया गया।
- (v) क लि. ने 30,000 पूर्वाधिकार अंश सममूल्य पर एवं 3,00,000 समता अंश प्रतिअंश रू. 12 से खुले बाज़ार में निर्गमित किये जो पूर्णतया बेचे गये एवं सभी राशी प्राप्त हुयी।
- (vi) 'ड' जिसने यह योजना अमल में लाई उसे उसके पारिश्रमिक के भुगतान के तहत 40,000 समता अंश (पूर्णदत्त) प्रतिअंश रू. 12 मूल्य पर निर्गमित किये।
- उपरोक्त व्यवहारों के लिए अ लि. की पुस्तक में प्रविष्टियाँ दीजिए। एवं क लि. का स्थितिविवरण तैयार कीजिए।

14

अथवा

31 मार्च 2014 को विदर्भ कं. लि. व महाराष्ट्र कं. लि. के स्थितिविवरण निम्नलिखित हैं :

विदर्भ कं. लि. स्थितिविवरण

देयता	राशि रू.	संपत्ती	राशि रू.
अंशपूँजी		विविध संपत्ती	3,37,00,000
(90,000 अंश प्रतिअंश		रोक	70,000
रू. 270 का)	2,43,00,000		
सामान्य संचिती	80,70,000		
लाभ-हानि खाता	3,00,000		
विविध उत्तमर्ण	11,00,000		
	3,37,70,000		3,37,70,000

महाराष्ट्र कं. लि. स्थितिविवरण

देयता	राशि रु.	संपत्ती	राशि रु.
अंशपूजी (4,00,000 अंश प्रतिअंश रु. 150 का)	6,00,00,000	विविध संपत्ती रोक	8,71,50,000 5,50,000
सामान्य संचिती	2,57,00,000		
लाभ-हानि खाता	7,00,000		
विविध उत्तमर्ण	13,00,000		
	8,77,00,000		8,77,00,000

महाराष्ट्र कं. लि. ने विदर्भ कं. लि. का संविलयन करने का निर्णय लिया। इस हेतु निम्न योजना मान्य की गई :

विदर्भ कं. लि. के अंशधारियों को प्रत्येक तीन अंशों के लिए महाराष्ट्र कं. लि. के 5 अंश मिलेंगे तथा दोनों कंपनियों के अंशधारियों को उनके स्थितिविवरण के अंशों के आंतरिक मूल्य के अनुसार अंशधारियों का अधिकार समायोजित करना इतनी नकद राशी दी जायेगी। क्रय प्रतिफल का आगमन कीजिए तथा महाराष्ट्र कं. लि. की पुस्तक में पंजी प्रविष्टियाँ देकर उसका संविलयन पश्चात का स्थितिविवरण तैयार कीजिए। 14

5. एक्स कं. लि. के 31 मार्च, 2013 व 31 मार्च, 2014 के स्थितिविवरण निम्नलिखित हैं :

देयता	रु. 31 मार्च 2013	रु. 31 मार्च 2014
अंश पूंजी	10,00,000	12,50,000
लाभ-हानि खाता	1,52,500	1,53,000
व्यापारी उत्तमर्ण	7,50,000	6,76,000
सामान्य संचिती	2,50,000	3,00,000
अल्पकालीन अधिकोष ऋण	3,50,000	—
आयकर प्रावधान	1,50,000	1,75,000
	26,52,500	25,54,000

संपत्ती	रु. 31 मार्च 2013	रु. 31 मार्च 2014
यंत्र व संयंत्र	7,50,000	8,70,000
अधिकोष	—	40,000
रोकड़	2,500	3,000
भूमि एवं भवन	10,00,000	9,50,000
व्यापारी स्कंध	5,00,000	3,70,000
विविध अधमर्ण	4,00,000	3,21,000
	26,52,500	25,54,000

समायोजनाएँ :

- (1) संयंत्र पर अवक्षयण रु. 70,000 लगाया है।
- (2) लाभांश दिया रु. 1,00,000।
- (3) आयकर के लिए प्रावधान किया रु. 1,25,000।
- (4) एक भूखंड लागत मूल्य पर बेचा।

तैयार कीजिए :

- (1) कार्यशील पूंजी परिवर्तन का विवरण।
- (2) निधि स्रोत तथा उपयोग विवरण।

14

अथवा

गुजरात कं. लि. के 31 मार्च, 2013 तथा 31 मार्च, 2014 के स्थितिविवरण निम्न प्रकार है :

देयताएं	रु. 31 मार्च 2013	रु. 31 मार्च 2014
समता अंशपूंजी	7,00,000	7,40,000
12% ऋणपत्र	1,20,000	60,000
व्यापारी उत्तमर्ण	1,03,600	1,18,400
लाभालाभ लेखा	1,00,400	1,05,600
संदिग्ध ऋणार्थ संचिती	7,000	8,000
	10,31,000	10,32,000

सपत्तियां	रु. 31 मार्च 2013	रु. 31 मार्च 2014
भूमि	2,00,000	3,00,000
रोकड़	90,000	78,000
ख्याति	1,00,000	50,000
व्यापारी स्कंध	4,92,000	4,27,000
विविध अधमर्ण	1,49,000	1,77,000
	10,31,000	10,32,000

समायोजनाएँ :

- (1) लाभांश दिया रु. 70,000।
- (2) भूमि खरेदी रु. 1,00,000।
- (3) ख्याति का अपलेखन रु. 50,000।
- (4) ऋणपत्र की वापसी रु. 60,000।

तैयार कीजिए :

- (1) कार्यशील पूंजी परिवर्तन का विवरण।
- (2) निधी स्रोत व उपयोग विवरण।

14

